

વિશેષ રિપોર્ટ

12 અક્ટૂબર 2022

મસાલે

અક્ટૂબર 2022




महत्वपूर्ण कारक

- हल्दी की कम होती आवक
- हल्दी का बढ़ता निर्यात
- आगामी दिनों में त्योहारी और वैवाहिक सीजन की मांग
- आंध्रप्रदेश में कम उत्पादन क्षेत्र


फंडामेंटल

हल्दी की कीमतों में सितंबर महीने में भी नरमी का रूझान जारी रहा और भौतिक बाजार में कमजोर मांग के कारण कीमतें माह-दर-माह 2.9% लुढ़क गईं। स्टॉकस्ट आगामी सीजन के लिए उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद में थोक खरीदारी से दूर रहे।


हल्दी की हाजिर मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी की संभावना है। हल्दी की कीमतों के मौसमी पैटर्न से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में आवक बंद होने के कारण हल्दी की हाजिर कीमतों में तेजी बनी रहेगी। भारत में त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही मौजूदा स्तर पर हल्दी की मांग में भी सुधार हुआ है। स्टॉकस्ट बेहतर कीमतों की उम्मीद में खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं जबकि नयी फसल की आवक में अभी 5-6 महीने की देरी है।




स्रोत : रॉयटर्स




स्रोत : एगमार्क






स्रोत : डीजीएफटी



आउटलुक

आने वाले समय में कीमतें दक्षिणी राज्यों में चल रही बुवाई गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं जो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में बुवाई की गतिविधियां धीमी हो गईं और हल्दी के तहत कुल उत्पादन क्षेत्र साल-दर-साल 13% कम रहा है, जो पिछले साल के 19376 हेक्टेयर की तुलना में अक्टूबर 22 तक 16921 हेक्टेयर था। आने वाले हफ्तों में त्योहारी और शादियों के मौसम की मांग में सुधार होने की संभावना है जिससे कीमतों में मजबूती आएगी। कम आवक के मौसम के कारण आवक कम रहने की संभावना है। उपरोक्त फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए, कीमतों को 6710 पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले हफ्तों में धीरे-धीरे 8000 के स्तर तक बढ़ने की संभावना है।

हल्दी की कीमतों का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत : रॉयटर्स

हल्दी (नवम्बर)	स्टॉपलॉस 1	स्टॉपलॉस 2	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 1
	6444	6718	7094	7368	7744


महत्वपूर्ण कारक

- प्रमुख मंडियों में आवक की मात्रा
- चीन से बढ़ती मांग
- आगामी सीजन में उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना
- अधिक कीमतों पर कारोबारियों की ओर से कम मांग


फंडामेंटल

सितम्बर महीने में स्थानीय बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण जीरा की कीमतों में तेज गिरावट हुई। स्टॉकिस्टों और मसाला निर्माताओं की ओर से जरूरत के आधार पर खरीददारी के कारण वायदा प्लेटफॉर्म पर मुनाफावसूली शुरू हुई।


हाजिर बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण जीरा की हाजिर कीमतें एनसीडीईएक्स में नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों पर 400 रुपये से अधिक के प्रीमियम पर कारोबार कर रही हैं। आपूर्ति की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, वायदा पर हाजिर कीमतों के प्रीमियम में आगे भी वृद्धि होने की संभावना है। हाजिर कीमतों में मजबूती से वायदा कीमतों में भी गिरावट पर रोक लगेगी।




स्रोत : रॉयटर्स



स्रोत : रॉयटर्स



स्रोत : एगमार्क




जीरा

आउटलुक

बिकवाली के बढ़ते दबाव के कारण जीरा नवंबर वायदा कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है। चूंकि जीरा की कीमतें अभी भी पिछले वर्ष की कीमतों के साथ-साथ सामान्य कीमतों के मुकाबले काफी अधिक हैं, जो बाजार में केवल बड़े खिलाड़ियों को आकर्षित करेगी, जिसमें सीमांत खरीदार और स्टॉकिस्ट जरूरत आधारित खरीदारी के लिए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में त्योहारों के साथ-साथ शादी-विवाह के मौसम में मांग बढ़ने से जीरा की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। अगले साल फरवरी-मार्च में जब तक नई फसल बाजार में नहीं आती है, तब तक आवक कम रहने की संभावना है। इसके अलावा, आने वाले महीनों में भारतीय जीरा की वैश्विक मांग स्थिर रहेगी क्योंकि सीरिया और अन्य निर्यातक देशों में उत्पादन कम होने से आयातक देश भारत से जीरा आयात करने के लिए मजबूर होंगे। चीन में आपूर्ति की कमी के कारण हाल के महीनों में चीन से मांग बढ़ी है। अगस्त 22 में जीरा के कुल भारतीय निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 45% रही है।

भारत से जीरा के प्रमुख आयातक देश (% में)



स्रोत : डीजीएफटी

जीरा (नवंबर) की वायदा कीमतों में शुरूआती गिरावट के साथ 23000 तक लुढ़कने की संभावना है। घरेलू बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण 23000 से नीचे गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। कीमतें 23000 के सपोर्ट स्तर को बनाए रखेंगी और आने वाले हफ्तों में धीरे-धीरे 25000 तक बढ़ सकती है।

जीरा की कीमतों का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत : रॉयटर्स

जीरा (नवम्बर)	स्टॉपलॉस 1	स्टॉपलॉस 2	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 1
	23300	24000	24900	26000	26500

महत्वपूर्ण कारक


- कम आवक का सीजन
- चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के साथ आयात पर अनिश्चितता
- उत्सव और शादी के मौसम के दौरान मांग
- बेहतर बुवाई की उम्मीद

फंडामेंटल

मुख्य रूप से बढ़े हुए आयात के कारण सितंबर 22 में धनिया वायदा की कीमतों पर दबाव रहा। उत्पादन में वार्षिक गिरावट के बावजूद आयात में वृद्धि के कारण आपूर्ति पर्याप्त बनी रही। स्थानीय व्यापारी और मसाला निर्माता भी आपूर्ति की पर्याप्तता के कारण आमने-सामने खरीदारी करने लगे जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ा। सितंबर 22 में धनिया की कीमतें माह-दर-माह 10% गिरकर 10300 के निचले स्तर को पहुंच गईं।


अक्टूबर-22 में धनिया की कीमतें तेजी के रूझान के साथ कारोबार कर रही हैं जो दर्शाता है कि वायदा की तुलना में धनिया की हाजिर मांग अधिक है। त्योहारी और शादियों के मौसम के दौरान मांग में वृद्धि और घरेलू बाजार में गुणवत्ता वाले उत्पादों की सीमित उपलब्धता के मद्देनजर, निकट अवधि में हाजिर कीमतों में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है। सीजनल आधार पर पता चलता है कि हाजिर और वायदा कीमतों के बीच अंतर कम नवंबर-दिसंबर में भी कम रह सकती है।

धनिया की कीमतों का मौसमी पैटर्न




स्रोत : रॉयटर्स

हाजिर-वायदा कीमतों का अंतर




स्रोत : रॉयटर्स

धनिया की आवक (1000 टन)




स्रोत : एगमार्क

भारत में धनिया का आयात (1000 टन)



स्रोत : डीजीएफटी

धनिया आयात में विभिन्न देशों की हिस्सेदारी (%)



स्रोत : डीजीएफटी

आउटलुक

मुख्य रूप से सक्रिय त्योहारी खरीदारी के कारण निकट भविष्य में धनिया की कीमतों के तेजी के रूझान के साथ साइडवेज रहने की संभावना है। आने वाले महीने आवक के लिए ऑफ सीजन हैं और आयात को लेकर किसी भी तरह की अनिश्चितता से गिरावट सीमित होगी। यूक्रेन और रूस के बीच भू-राजनीतिक तनाव जारी है और रूस से आपूर्ति में कोई व्यवधान से घरेलू धनिया की कीमतों को मदद मिलेगी। लेकिन हालांकि, अक्टूबर के अंत तक मुनाफावसूली देखे जाने की संभावना है और स्टॉकिस्टों एवं किसानों को अभी भी धनिया पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। धनिया की कीमतें अभी भी पिछले साल की तुलना में और सामान्य से बहुत अधिक चल रही हैं, जो अक्टूबर के अंत तक बुवाई गतिविधियों में तेजी आने के बाद स्टॉकिस्ट को अपना स्टॉक जारी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। नमी का पर्याप्त स्तर और धनिया से बेहतर लाभ के कारण किसान धनिया के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, बढ़ते आयात से कीमतों में बढ़त भी सीमित होगी।

धनिया की कीमतों का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत : रॉयटर्स

धनिया (नवम्बर)	स्टॉपलॉस 1	स्टॉपलॉस 2	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 1
	9500	10300	11364	11950	12700

वंदना भारती	एवीपी कर्मांडिटी रिसर्च	फोन न. 011-30111000	एक्सटें. 625	vandanabharti@smcindiaonline.com
रवि पाण्डेय	सीनियर रिसर्च एसोसिएट	फोन न. 011-30111000	एक्सटें. 674	ravi16@smcindiaonline.com
शिवानन्द उपाध्याय	रिसर्च एसोसिएट	फोन न. 011-30111000	एक्सटें. 646	shivanand@smcindiaonline.com

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिटेड नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एमएसआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिन्डिकेटिड मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्वैलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विस्तृत सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत प्रादक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोषण हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।